

प्रेस विज्ञप्ति

26 जुलाई 2021

गोरखनाथ ब्लड बैंक द्वारा कारगिल विजय दिवस पर बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन कर मां भारती की रक्षा करने वाले वीर जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। साल 1999 में कारगिल युद्ध में देश के वीर -जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। ये बातें ब्लड बैंक प्रभारी डॉ अवधेश अग्रवाल ने बतायी, और कहा की

"हमने परास्त करके वापस उनके देश खदेड़े हैं सिकन्दर जैसे योद्धा को जो सिर झुकाए मात खाए लौट गए हैं हमसे वही टक्कर लेते हैं और भिड़ते हैं जिनका मन धरा से भर चुका होता है"

कारगिल विजय दिवस पर भारत माता के उन तमाम जाँबाज़ों को नमन एवं वंदन, जिन्होंने भारत की धरती और दुश्मनों की गोलियों के बीच अपने फौलादी सीने को दीवार की तरह दुर्भेद बनाकर खड़ा कर दिया ताकि कोई नापाक क़दम इस तरफ न आ सके। कई नवजवानों ने तो बम अपने पीठ एवं पांव में बांधकर बिना अपने प्राणों की परवाह किये पहाड़ों पर चढ़कर दुश्मनों पर टूट पड़े थे

आज इस रक्तदान शिविर में श्री अरुण गुप्ता, राजेश कुमार , संजय महेंद्र सिंह, प्रिय राय, के साथ 20 लोगो ने रक्तदान किया।

इस कार्यक्रम मे चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉ अतुल वाजपेयी,उपर निदेशक डॉ कामेश्वर सिंह, डॉ राकेश तिवारी, डॉ देवी प्रसाद, डॉ दिवाकर मिश्रा इत्यादि उपस्थित रहे।

ब्लड बैंक तकनीशियन अमित मिश्रा राजीव तिवारी चंद्रेश्वर यादव तथा गिरीश पाठक की इस शिविर को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही सभी रक्तदाताओं को ब्लड बैंक द्वारा सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया । वैश्विक महामारी कोविड को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस, हैण्ड सैनिटाइजेशन तथा मास्क इत्यादि मानकों का अनुपालन करते हुए कोविड अनुकूल व्यवहार का अक्षरशः पालन किया गया। रक्तदाताओ का चिकित्सीय परिक्षण, हीमोग्लोबिन, बी.पी पल्स, ब्लड ग्रुप इत्यादि जाँच की गई।